



**राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय**  
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था)  
बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली - 110001

**16 दिवसीय ऑनलाइन अभिनय कार्यशाला**

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 16 दिवसीय ऑनलाइन अभिनय कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है जोकि दिनांक 01/03/2021 से 23/03/2021 तक चलेगी। कोविड - 19 के प्रतिबंध के कारण कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम के द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यशाला के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कुल सीट - 100

**योग्यता एवं आवश्यक दस्तावेज -**

- 1- आयु - प्रतिभागी की न्यूनतम आयु दिनांक 21/02/2021 को 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- 2- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - स्नातक (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- 3- अनुभव - न्यूनतम 5 नाटकों में अभिनय (प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है)
- 4- प्रतिभागी को हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्यान्वयन ज्ञान हो।
- 5- प्रतिभागी को किसी एक नाट्य गुरु अथवा रंग विशेषज्ञ का प्रमाण - पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 6- प्रतिभागी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वेबसाइट पर संलग्न संवादों में से कोई एक संवाद चुनकर, किसी एक का प्रदर्शन (न्यूनतम अवधि दो मिनट) तैयार कर रिकॉर्ड करके यू-ट्यूब पर अपलोड करने के उपरान्त उसका लिंक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 16/02/2021 से 21/02/2021 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वेबसाइट [www.nsd.gov.in](http://www.nsd.gov.in) पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन कर सकते हैं।

**चयन प्रक्रिया -**

आवेदन पत्र में दी गयी जानकारियों एवं रिकॉर्डेड अभिनीत संवाद के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। पूर्ण आवेदन - पत्र पर ही विचार किया जाएगा, अधूरे भरे आवेदन-पत्र एवं मांगे गए किसी भी दस्तावेज की कमी वाले आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए जायेंगे। चयन समिति का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। वेबसाइट पर आवेदन लिंक 6 दिन अथवा 300 आवेदन की प्राप्ति तक ही उपलब्ध रहेगा।

**फीस -**

आवेदन पत्र भरने की फीस रु. 50/- है। कार्यशाला की फीस रु. 1,000/- जोकि चयनित उम्मीदवारों के द्वारा 27 फरवरी 2021 तक दोपहर 01:00 बजे से पहले केवल ऑनलाइन जमा करानी होगी जिसका लिंक चयनित उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को नियमित तौर से सभी ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति में कमी के कारण प्रतिभागी को कार्यशाला से निष्कासित किया जा सकता है। एक दिन में एक सत्र होगा जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। जिसे 2 टाइम स्लॉट में वर्गीकृत किया गया है 02:00 - 04:00 अपराह्न और 4:30 - 6:30 बजे, टाइम स्लॉट एन.एस.डी. द्वारा ही निश्चित किया जाएगा तदुपरांत सभी प्रतिभागियों को हर दिन सांय 07:30 बजे से एक नाटक दिखाया जाएगा उसके उपरान्त नाटक पर चर्चा होगी जिसमें सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया आवेदन - पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

- कृपया पूर्व में आयोजित इसी तरह की कार्यशाला में भाग ले चुके प्रतिभागी आवेदन न करें।

**पूछताछ - 011-23031120/121**

**प्रभारी निदेशक**

**राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय**

